

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक:-11.06.2021

अन्तर्जनपदीय गांजा तस्कर पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार 22 किलो गांजा (अनुमानित कीमत 4,40,000/-) के साथ असलहा बरामद-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कलवारी श्री शक्ति सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज श्री बृजेश सिंह व स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11.06.2021 को बस्ती लखनऊ हाईवे स्थित गड़हा गौतम अंडरपास के पास से 22 किलोग्राम अवैध गांजा व एक अदद असलहा 12 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस तथा एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर, एक अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 114/2021 धारा 307 IPC व मु0अ0सं0 115/2021 धारा 3/25 Arms Act तथा मु0अ0सं0 116/2021 धारा 8/20 NDSP Act पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय बस्ती खाना किया गया।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव द्वारा पुरी टीम को 10,000/- रुपये से पुरस्कृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

(01) रवि चौहान उर्फ सुड्डू पुत्र रामपाल चौहान निवासी मुरादीपुर थाना हरैया जनपद बस्ती।

(02) पाल जी गौतम पुत्र राधेश्याम निवासी शेखपुरा थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण:-

1. 22 किलोग्राम नजायज गांजा।
2. 01 अदद असलहा 12 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
3. एक अदद मोटरसाइकिल HF Delux।
4. दो अदद मोबाईल फोन

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज मय फोर्स व प्रभारी स्वाट मय टीम के साथ गड़हा गौतम अंडर पास के पास गड़हागौतम मे हुई चोरी के सम्बन्ध मे सम्भावित अपराधियों के सम्बन्ध में आपस में बात चीत कर रहे थे की अचानक बस्ती की तरफ से एक मोटर साइकिल आती दिखाई दी जो पास आते ही चालक अचानक ब्रेक लेते ही पीछे मुड़ने लगा की शक के आधार पर रोका व टोका गया तो लड़खड़ाते हुए मोटर साइकिल से गिर पड़ा पुनः उठकर भागने लगे कि पीछा करके ललकारा गया तो उनमें से आवाज आयी की मारो सालों को पुलिस वाले है नही तो पकड़े जाएंगे इस पर उनमें से एक व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से हम पुलिस वालों की तरफ लक्ष्य करके फायर कर दिया हम पुलिस वाले हिकमत अमली से लेट कर अपने को बचाते हुए दो व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 01:20 बजे रात्रि पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्तियों को उनके मोटरसाइकिल जहां पर पास में एक प्लास्टिक का बोरा भी मौजूद है के बारे में पूछा गया तो दोनों ने कहा कि साहब इसमें नजायज गांजा है इसलिए हम लोग डर कर भाग रहे थे।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर दोनों अभियुक्तों ने बताया कि बोरे में 22 Kg गांजा है जिसे हम दोनों सत्य प्रकाश सिंह पुत्र स्व० रणजीत सिंह निवासी लाडलापुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर से खरीद कर हरैया ले जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया हमारा साथी सत्य प्रकाश सिंह की मदद से हम लोग ये कार्य करते है पालजी गौतम द्वारा बताया गया कि मोटरसाइकिल हीरो HF डिलक्स गाड़ी नं० UP-51 AF-0969 जो मौके पर पड़ी है यह मेरी है ।

अभियुक्त रवि चौहान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 127/2020 धारा 8/20 NDPS Act थाना हरैया जनपद बस्ती ।
2. मु०अ०सं० 53/2020 धारा 8/20 NDPS Act थाना हरैया जनपद बस्ती ।
3. मु०अ०सं० 986/2017 धारा 60 Ex. Act थाना हरैया जनपद बस्ती ।
4. मु०अ०सं० 155/2020 धारा 147/323 IPC थाना हरैया जनपद बस्ती ।
5. मु०अ०सं० 114/2021 धारा 307, IPC थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती ।
6. मु०अ०सं० 115/2021 धारा 3/25 Arms Act थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती ।
7. मु०अ०सं० 116/2021 धारा 8/20 NDSP Act थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज श्री बृजेश सिंह जनपद बस्ती ।
2. प्रभारी स्वाट टीम श्री विनोद कुमार यादव जनपद बस्ती ।
3. उ०नि० श्री जितेन्द्र सिंह सर्विलांस/थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती ।
4. उ०नि० श्री अनस अख्तर थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती ।
5. उ०नि० श्री राजीव सिंह थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती ।
6. हे०का० मनिन्द्र प्रताप चन्द्र , हे०का० मनोज कुमार राय, हे०का० महेन्द्र यादव, का० रविशंकर शाह ,का० देवेन्द्र निषाद, का० रमेश गुप्ता स्वाट टीम जनपद बस्ती ।
7. हे०का० राजकुमार सिंह, का० असरफ, का० श्रीकान्त, का० अभय सिंह थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती ।